



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature


ACC Name: Radha Keshwar Singh

ACC Address: Firozpur, UP, State: Uttar Pradesh

License No. 91, Tehsil: Firozpur

राधा केशवानी

Certificate No. : IN-UP04099788038947U
 Certificate Issued Date : 23-Sep-2022 11:35 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14162704/ PHULPUR/ UP-AHD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1416270499932979297650U
 Purchased by : Citizen Housing And DevCoSoc LtdThrSecNishithVerma
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : Part Of Arazi 1050 And Others Mauja Andawa Jhunsu Phulpur Prayagraj
 More Detail As Per Deed
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : Lalita Devi Urf Lalti Devi W O Ram Kedar
 Second Party : Citizen Housing And DevCoSoc LtdThrSecNishithVerma
 Stamp Duty Paid By : Citizen Housing And DevCoSoc LtdThrSecNishithVerma
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,42,700
 (Two Lakh Forty Two Thousand Seven Hundred only)



Please write or type below this line

मिथिल
लालती देवी.

JD 0000443492

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.stockholding.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid. In case of any discrepancy please report the Collector, Firozpur.

SHCH





Both
photo
submitted
for
signature

1. भूमि का प्रकार

-

विकय-पत्र

आवासीय भूमि

2. ग्राम

-

अन्दावा परगना झूँसी तहसील फूलपुर जिला
प्रयागराज।

3. परगना

-

झूँसी

4. तहसील

-

फूलपुर

5. जनपद

-

प्रयागराज

6. आराजी सं०

-

1050, 1058, 1059, 1060, 1061,
1066, 1067, 1071, 1072,

1073, 1077, 1078, 1102, 1104,

1112, 1139, 1140, 1144क,

1152, 1153, 1154, 1155, 1156,

1157, 1158, कुल 25 गाटा जिसका कुल

रकबा 1.1630 हे० में अपने सम्पूर्ण वैधानिक

अंश है।



निर्वाह
लागू है।



सचिव
(निरीक्षक वर्मा)

सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग
सहकारी आवास समिति लि०
100 जी० मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज



7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल	- 484.67 वर्गमीटर
8. माप की इकाई	- वर्गमीटर में
9. सड़क की स्थिति	- नहीं है।
10. प्रतिफल की धनराशि	- 34,00,000/-
11. सरकारी मालियत	- 46,05,000
11. स्टाम्प	- 2,42,700/- (समायोजन के पश्चात)

ललिता देवी उर्फ लालती देवी पत्नी स्व० रामकेदार निवासिनी ग्राम अंबदावा पो० सरायइनायत परगना झूँसी तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है व अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते है

आधार कार्ड नं० 9636 2882 0512 मो० 8299612236 पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है धारा 60 का पालन किया गया है।

..... प्रथम पक्ष/विकेती

एवं

सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लि० द्वारा सचिव निशीथ वर्मा पुत्र स्व० आर०एन०वर्मा निवासी 1,एम 0जी० मार्ग सिविल प्रयागराज।

आधार कार्ड नं० 722595166587 मो० 9335155202 ,पैन कार्ड सं० AIZPV8582B

..... द्वितीय पक्ष/केता

आराजी सं० 1073, की चौहददी:-

पूरब	- आराजी सं० 1159
पश्चिम	- आराजी सं० 1072
उत्तर	- आराजी सं० 1056 का जुज भाग
दक्षिण	- आराजी सं० 1074





नि०अ०
लालती देवी

आवेदन सं०: 202200889013688

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10618


वर्ष: 2022

प्रतिफल- 3400000 स्टाम्प शुल्क- 242700 बाजारी मूल्य - 4605000 पंजीकरण शुल्क - 46050 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 46130

श्रीमती ललिता देवी उर्फ लालवी देवी
पत्नी श्री स्व० रामकेदार
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: अन्दावा, सरायइनायत, तह०-फूलपुर जिला-प्रयागराज



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/09/2022 एवं 12:37:54 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

डा० प्रभा मिश्रा
उप निबंधक : फूलपुर
प्रयागराज
23/09/2022

मनोज कुमार पोण्डेय
निबंधक लिपिक
23/09/2022



आराजी सं० 1078, की चौहददी:-

पूरब	- आराजी सं० 1077
पश्चिम	- आराजी सं० 1079
उत्तर	- आराजी सं० 1071 व 1072 का जुज भाग
दक्षिण	- आराजी सं० 1076 का जुज भाग

आराजी सं० 1112, की चौहददी:-

पूरब	- आराजी सं० 1108 व 1120 का जुज भाग
पश्चिम	- आराजी सं० 1113
उत्तर	- आराजी सं० 1110 व 1109
दक्षिण	- आराजी सं० 1119 व 1118 का जुज भाग

यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता भारत की नागरिक है इस विलेख के माध्यम से विक्रित सम्पत्ति की भूमिधरी स्वामिनी है जो प्रथम पक्ष को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुयी है तथा पुस्तैनी भूमि जो हर प्रकार के भार से पाक व साफ सुथरा है तथा प्रथम पक्ष का कब्जा व दखल चला रहा रहा है जिसको विक्रय किये जाने का पूरा हक व अधिकार प्रथम पक्ष को है।

यह कि विक्रित सम्पत्ति का आपसी बँटवारा प्रथम पक्ष के सहस्रातेदारों के बीच सम्पन्न हो चुका है तथा सभी सहस्रातेदार सहमति से किये गये आपसी बँटवारे के आधार पर अपने हिस्से पर काबिज व दखील हैं जिस पर लगातार कास्त करती चली आ रही हैं तथा उक्त इकरारनामा के निष्पादन के समय विक्रय मूल्य की धनराशि के क्रम में समय समय पर विक्रेतागण द्वारा केता/द्वितीय पक्ष से विक्रय मूल्य के मद में धनराशि प्राप्त की जाती रही है जिसका विवरण इस विलेख में आगे उल्लेखित है।

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता प्रश्नगत विक्रित सम्पत्ति को विक्रित करने का इकरारनामा बिल्ला कब्जा द्वितीय पक्ष के पक्ष में दिनांक 01.06.2019 को निष्पादित किया गया है जो उपनिबंधक फूलपुर के कार्यालय में बही सं० 1 जिल्द सं० 7423 पृष्ठ सं० 277 से 304 तक क्रमांक 5034 पर दिनांक 01.06.2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है जो आज तक प्रभावी चला आ रहा है।



नि० सं०
लागू की



आवेदन सं०: 202200889013688

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10618

वर्ष: 2022


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्रीमती ललिता देवी उर्फ लालती देवी, पत्नी श्री स्व० रामकेदार

निवासी: अन्दावा, सरायइनायत, तह० फूलपुर जिला-
प्रयागराज

व्यवसाय: गृहि


क्रेता: 1



श्री सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग को-आपरेटिव
सोसायटी लि० के द्वारा निशीथ वर्मा (सचिव), पुत्र श्री स्व०
आर०एन० वर्मा

निवासी: 01 एम०जी०मार्ग सि०ला० प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री शिवकुमार, पुत्र श्री रमाशंकर

निवासी: मुलनापुर हण्डिया प्रयागराज

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता: 2



श्री अजय सिंह, पुत्र श्री धर्मपाल सिंह

निवासी: चन्द्रेपुर मलाक हरहर, फाफवा के थिया प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे दिये गए हैं।
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकार्या अधिकारी के हस्ताक्षर

ड० प्रभा मिश्रा

उपनिबंधक : फूलपुर

प्रयागराज

23/09/2022

प्रमोद कुमार पोण्डेय
निबंधक लिपिक प्रयागराज
23/09/2022

प्रिंट करें

जो कि मिनमुकिर भूमि जिसका विवरण इस लेख पत्र के ऊपर में वर्णित है का मालिक काबिज व संकमणीय भूमिधर है जो कि हर प्रकार के बार से पाक व साफ है विक्रेती को इस समय अपने निजी व्यवसाय एवं घरेलू व्यय के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है सिवाय भूमि उपरोक्त को विक्रय करने के अलावा रुपये मिलने की अन्य दूसरी कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही है जिससे मिनमुकिरा ने भूमि उपरोक्त के विक्रय की चर्चा किया जिस पर खरीददार द्वितीय पक्ष जिसका नाम व पता ऊपर दिया गया है। भूमि को मुबलिंग रु0 34,00,000/- (चौतीस लाख रुपये मात्र) में कय करने को तैयार है इससे ज्यादा अन्य कोई देने को तैयार नहीं है जो उचित एवं बाजारु है। लिहाजा मिनमुकिरा ने खूब सोच समझ कर अपने पूरे होशोहवास में बिना किसी के डराये धमकाये स्वस्थ मस्तिष्क से भूमि उपरोक्त को कुल मुबलिंग रु0 34,00,000/- (चौतीस लाख रुपये मात्र) रु0 जिराका आधा 17,00,000/- (सतरह लाख रुपये मात्र) होता है में उपरोक्त केता द्वितीय पक्ष सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग सहकारी आवास समिति लि0 द्वारा सचिव श्री निशीथ वर्मा निवासी ए/1 एम0जी0मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज को बेचा व बय कामिल किया। खरीददार से मुझ विक्रेती प्रथम पक्ष को कुल विक्रय मूल्य मुबलिंग रु0 34,00,000/- (चौतीस लाख रुपये मात्र) में से मुबलिंग रु0 35,31,250/- आज से पूर्व में विभिन्न चेकों के माध्यम से प्रदान कर दिया गया है इस प्रकार समिति द्वारा मु0 1,31,250/- का अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसका समायोजन शेष क्षेत्रफल 85.63 वर्गमीटर के होने वाले बैनामा में किया जायेगा।




नि0श0
लागनी देवी



→ जो कि इस प्रकार अब जिम्मे खरीददार बाबत कुल जरसमन मिनमुकिर प्रथम पक्ष/विक्रेता का कुछ भी बाकी नहीं रहा अर्थात् ततशुदा विक्रय मूल्य की धनराशि मु0 34,00,000/- (चौतीस लाख रुपये मात्र) उपरोक्तानुसार प्राप्त करने की अभिस्वीकृति प्रथम पक्ष द्वारा की जाती है।

यह कि द्वितीय पक्ष विकासकर्ता पंजीकृत एम0ओ0यू0 के माध्यम से न्यू सनसिटी कन्सोर्टियम का सदस्य है एवं योजना के प्रयोजन के लिए भूमि को क़य करने का अधिकार रखता है इसी कम में इस विक्रय पत्र के माध्यम से प्रश्नगत क़य शुदा सम्पत्ति को क़य किया जा रहा है।

→ इस प्रकार अब जिम्मे खरीददार बाबत कुल जरसमन मिनमुकिरा प्रथम पक्ष का कुछ भी बाकी नहीं रहा। यही तहरीर निस्बत बसूलयाबी कुल जरसमन के काफी है रसीद जुदागाना लिखने की जरूरत नहीं है। जायदाद बिकी हुई पर से विक्रेती प्रथम पक्ष ने अपना कब्जा व दख़ल उठा लिया और मिस्ल अपने मालिकाना तौर पर खरीदार उपरोक्त द्वितीय पक्ष को काबिज व दख़ील करा दिया। अब जायदाद बिकी हुई का तनहा मालिक काबिज व दख़ील खरीददार हुआ।




निवेदन
करीबी देना



उसको हक हासिल है कि जायदाद बिकी हुई का मालिकाना जिस तरह चाहे अपने अमल में लावे और कागजात सरकारी में अपना नाम दर्ज करा लेवे तथा मेरा नाम कटवा देवे यदि किसी दावेदारी या मेरी मिलकियत में किसी प्रकार का कानूनी नुकस होने की वजह से विक्रित आराजी खरीदार के मालिकाना अधिकार कब्जा व दखल से निकल जावे या कागजात सरकारी में नाम अंकित न हो सके तो उस सूरत में खरीदार को हक होगा कि व अपना कुल जरसमन मयसूद, व नुकसान के वर्तमान बैंक फिक्स डिपोजिट के ब्याज दर से वसूल कर लेवे इस पर विक्रेता पक्ष के वारिसान कायम मुकामान को कोई आपत्ति न है न आइन्दा ही होगी यहाँ प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की परिभाषा में उभय पक्षों के विधिक प्रतिनिधि उत्तरधिकारी नामांकिती आदि भी सम्मिलित है। उपरोक्त विक्रित भूमि पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है न ही कही बन्धक/गिरवी है और न ही किसी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई विवाद लम्बित है विक्रित भूमि पर कोई निर्माण नहीं है। विक्रित भूमि राजकीय आस्थान अथवा भूदान अथवा पट्टे की सम्पत्ति नहीं है।




मोक्ष
काशी देवी





यह कि उपरोक्त विहित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर जिला प्रयागराज के यहाँ वाद सं० 03137/2021 के अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 20.04.2021 के द्वारा उपरोक्त विहित भूमि के सम्बन्ध में अकृषक/143 का आदेश पारित किया गया है जिसका कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202102030203137 जिसके तहत उपरोक्त बैनामा निष्पादित किया जा रहा है।

अतः यह चन्द कलमा बतौर बयनामा रजिस्ट्री बहक खरीदार के पक्ष में लिख दिया कि प्रमाण रहे समय पर काम आवे।



दि० 28/0
मार्च 2021



विवरण जिसके संबंध में यह बैनामा किया जा रहा है।

भूमिधरी मौजा अन्दावा परगना झूँसी तहसील फूलपूर प्रयागराज की वर्तमान खतौनी वर्ष 1426-1431फ0 के खाता संख्या 281 में आराजी संख्या 1050 रकबा 0.1030 हे0 में से 0.0515 हे0 व आराजी संख्या 1058 रकबा 0.0570 हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी संख्या 1059 रकबा 0.0460 हे0 में से 0.0230 हे0 व आराजी संख्या 1060 रकबा 0.0570 हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी संख्या 1061 रकबा 0.0110 हे0 में से 0.0055 हे0 व आराजी संख्या 1066 रकबा 0.1260 हे0 में से 0.0630हे0 व आराजी संख्या 1067 रकबा 0.0570 हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी संख्या 1071 रकबा 0.0570 हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी संख्या 1072 रकबा 0.0570 हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी संख्या 1073 रकबा 0.0340 हे0 में से 0.0170 हे0 व आराजी संख्या 1077 रकबा 0.0230 हे0 में से 0.0115 हे0 व आराजी संख्या 1078 रकबा 0.0340 हे0 में से 0.0170 हे0 व आराजी संख्या 1102 रकबा 0.0570 हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी संख्या 1104 रकबा 0.0340 हे0 में से 0.0170 हे0 व आराजी संख्या 1112 रकबा 0.0570 हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी संख्या 1139 रकबा 0.0340 हे0 में से 0.0170 हे0 व आराजी सं0 1140 रकबा 0.0570हे0 में से 0.0285 हे0 व आराजी सं0 1144क रकबा 0.340हे0 में से 0.0170हे0 व आराजी सं0 1152 रकबा 0.0570हे0 में से 0.0285हे0 व आराजी सं0 1153 रकबा 0.0110हे0 में से 0.0055हे0 व आराजी सं0 1156 रकबा 0.0460हे0 में से 0.0230हे0 व आराजी सं0 1157 रकबा 0.0110हे0 में से 0.0055हे0 व आराजी सं0 1158 रकबा 0.460हे0 में से 0.0230हे0 व कुल 25 गाटा रकबा 1.1630हे0 में से 1/4 भाग 0.2908हे0 में से 1/6 भाग 484.67 वर्गमीटर की भूमि में अपने सम्पूर्ण अंश हक व हिस्सा को विक्रित करने हेतु उक्त बैनामा द्वितीय पक्ष के हक में निष्पादित किया। विक्रित भूमि में मुझ विक्रेता का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रह गया है।



जि० बा०
गाम्बी शर्मा

११





विक्रित भूमि का सरकारी कृषि दर सर्किल रेट की लिस्ट में भाग 2 प्रारूप 2 के पृष्ठ सं० 33 के क्रमांक 0390 के अनुसार सर्किल रेट 9,500/- प्रतिवर्गमीटर की दर से 484.67 वर्गमीटर का मूल्य मुबलिगरु० 46,04,400/- है जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से 3,22,400/- का होता है जिसमें से दिनांक 01.06.2019 को कराये गये इकरारनामा जिसका विवरण उपनिबंधक फूलपुर प्रयागराज के यहां बही सं० 1 जिल्द सं० 7423 के पृष्ठ सं० 277 से 304 का क्रमांक सं० 5034 पर दर्ज है जिसमें मुबलिग रु० 80,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था जिसमें से रु० 200/- निबंधन का स्टाम्प छोड़कर शेष का समायोजन करने के पश्चात् रु० 2,42,700/- जिसमें से मु० 100/- ई-स्टाम्प पेपर जिसका प्रमाण पत्र सं० IN-UP61990861639568U है एवं मुबलिग रु० 2,42,600/- का ई-स्टाम्प जिसका ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र सं. IN-UP.040.99.788.0389 47.0. व क्रमांक सं. 0000443492..... के माध्यम से अदा किया गया है। ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित करते हैं उनको सत्यतापूर्वक व्यक्त किया गया है अर्थात् धारा 27 का पालन किया गया है।




नि० सं०
मालती देवी

[Handwritten signature]





गवाह संख्या -1	गवाह संख्या -2
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
	
	
नाम श्री शिव कुमार पिता का नाम श्री रमाशंकर पता ग्राम मुलनापुर, सैदाबाद प्रयागराज।	नाम श्री अजय सिंह पिता का नाम श्री धर्मपाल सिंह पता ग्राम चन्द्रेपुर, मलाक हरहर उपरहार फाफामऊ प्रयागराज।
आधार कार्ड नं० 9681 9694 9623	आधार कार्ड नं० 334814248973
मो० नं० 9621056819	मो० नं० 9936048102

 मि० बा०
कामती देवी.

हस्ताक्षर विक्रेती/प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर क्रेता/द्वितीयपक्ष

 (निशीथ वर्मा)
सचिव
सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग
सहकारी आवास समिति लि०
1 एम० जी० मार्ग, सिटीविल लाइन्स, प्रयागराज

मसविदाकर्ता - धर्मराज एन०

टाइपकर्ता - राहुल

दिनांक - 23.09.2022

आवेदन सं०: 202200889013688

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9356 के पृष्ठ 153 से 174 तक क्रमांक 10618 पर दिनांक 23/09/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

AM
डा० प्रभा मिश्रा
उप निबंधक : फूलपुर
प्रयागराज
23/09/2022

प्रमाणित किया जाता है कि इस किले में दफ्तर
स्टाफ द्वारा अन्तर्गत मु... 799-0-0L
प्राप्त किया गया है। 5034/19
में दिया जा चुका है। 10-11-2022
बले हटा हटा जायेगी वी घरा 10 के
अन्तर्गत सन... 10-11-2022

फूलपुर - 2022/09/23

